

प्रेस विज्ञप्ति

## जामिया वीसी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई

भ्रष्टाचार देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में एक बड़ी बाधा है- इसे ध्यान में रखते हुए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जामिइ) के कर्मचारियों ने आज कोविड -19 के अनुरूप सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करते हुए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के लॉन में जामिया के रजिस्ट्रार डॉ नाजिम हुसैन जाफरी, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), प्रो एजाज़ मसीह, अन्य अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति में जामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर ने शपथ दिलाई।

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देने और 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की नीति को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए 26 अक्टूबर से 01 नवंबर, 2021 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के क्रम में यह शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता" है।

अन्य बातों के अलावा, कर्मचारियों ने नैतिक व्यवसाय प्रथाओं को बढ़ावा देने, ईमानदारी और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने का वचन दिया; रिश्वत की पेशकश या स्वीकार नहीं करना; पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर आधारित अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता; व्यवसाय के संचालन में प्रासंगिक कानूनों, नियमों और अनुपालन तंत्र का पालन; सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता अपनाना; अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन के लिए अपने काम से संबंधित कानूनों, विनियमों आदि के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने; शिकायतों और कपटपूर्ण गतिविधियों की रिपोर्ट करने, हितधारकों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिए शिकायत निवारण और व्हिसल ब्लोअर तंत्र की शपथ दिलाई गयी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण के अपने प्रयासों के क्रम में, हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया